



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

27 चैत्र 1936 (श0)  
(सं0 पटना 380) पटना, वृहस्पतिवार, 17 अप्रील 2014

---

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

17 अप्रील 2014

सं0 बी1-3-91/2014-38—लोक सभा का आम निर्वाचन, 2014 के अवसर पर 1-वाल्मीकिनगर, 2-पश्चिम चम्पारण, 3-पूर्वी चम्पारण, 16-वैशाली, 17-गोपालगंज (अ.जा.) एवं 18-सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 17.04.2014 एवं भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-464/2014 (9) दिनांक 17.04.2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

हुसैन यूसुफ रिजवी,

संयुक्त सचिव।

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
विधायी विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2014 / चैत्र 27, 1936 (शक)

का0आ0 ..... (अ)- पंद्रहवीं लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति पर नई लोक सभा गठित किए जाने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराए जाने का विनिश्चय किया गया है,

अतः अब, राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उप-धारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों, के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में यथाविनिर्दिष्ट तत्स्थानी बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों में समाविष्ट उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं :

राज्य (1)	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (2)
बिहार	1-वाल्मीकि नगर 2-पश्चिम चम्पारण 3-पूर्वी चम्पारण 16-वैशाली 17-गोपालगंज (अ0जा0) 18-सिवान
उत्तर प्रदेश	60-डुमरियागंज 63-महराजगंज 64-गोरखपुर 65-कुशीनगर 66-देवरिया 67-बांसगांव (अ0जा0) 68-लालगंज (अ0जा0) 69-आज़मगढ़ 70-घोसी 71-सलेमपुर 72-बलिया 73-जौनपुर 74-मछलीशहर (अ0जा0) 75-गाजीपुर 76-चन्दौली 77-वाराणसी 79-मिर्जापुर 80-राबट्सगंज (अ0जा0)
पश्चिमी बंगाल	10-बहरामपुर 12-कृष्णानगर 13-रणघाट (अ.जा.) 14-बनगांव (अ.जा.) 15-बैरकपुर 16-दमदम 17-बारासात 18-बसीरहाट 19-जयनगर (अ.जा.) 20-मथुरापुर (अ.जा.) 21-डायमंड हारबर 22-जादवपुर 23-कोलकाता दक्षिण

राज्य (1)	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (2)
	24-कोलकाता उत्तर
	30-तामलुक
	31-काशी
	32-घाटल

पी.के.मल्होत्रा,  
सचिव, भारत सरकार  
[ फा0 एच0-11024(2)/2014-वि02 ]

Government of India  
Ministry of Law and Justice  
Legislative Department

Notification

*New Delhi, the 17<sup>th</sup> April, 2014/Chaitra 27, 1936(Saka)*

S.O. (E)- Whereas it has been decided to hold a general election for the purpose of constituting a new House of the People, on the expiration of the term of fifteenth House of the People;

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the parliamentary constituencies, specified, in column (2) of the Table given below comprised within the corresponding States of Bihar, Uttar Pradesh and West Bengal as specified in column (1) of the Table, to elect members in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:

State (1)	Parliamentary Constituency (2)
BIHAR	1-Valmiki Nagar
	2-Paschim Champaran
	3-Purvi Champaran
	16-Vaishali
	17-Gopalganj (SC)
	18-Siwan
UTTAR PRADESH	60-Domariyaganj
	63-Maharajganj
	64-Gorakhpur
	65- Kushi Nagar
	66-Deoria
	67-Bansgaon (SC)
	68-Lalganj (SC)
	69-Azamgarh
	70-Ghosi
	71-Salempur
	72-Ballia
	73-Jaunpur
	74-Machhlishahr (SC)
	75-Ghazipur
	76-Chandauli

State (1)	Parliamentary Constituency (2)
	77-Varanasi
	79-Mirzapur
	80-Robertsganj (SC)
WEST BENGAL	10-Baharampur
	12-Krishnangar
	13-Ranaghat (SC)
	14-Bangaon (SC)
	15-Barrackpur
	16-Dum Dum
	17-Barasat
	18-Basirhat
	19-Jaynagar (SC)
	20-Mathurapur (SC)
	21-Diamond Harbour
	22-Jadavpur
	23-Kolkata Dakshin
	24-Kolkata Uttar
	30-Tamluk
	31-Kanthi
32-Ghatal	

P.K.Malhotra,  
Secretary to the Government of India  
[F.H-11024(2)/2014-Leg.II]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 दिनांक 17 अप्रैल, 2014 / 27 चैत्र, 1936 (शक)

सं. 464/2014 (9)-यतः, भारत के राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन जारी और दिनांक 17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार) को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा संलग्न अनुसूची में उल्लिखित राज्यों या संघ शासित खेतों के, इस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट, प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दिए जाएं;

2. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा-

(अ) उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्न रूप से नियत करता है,-

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख - 24 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - 25 अप्रैल, 2014 (शुक्रवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 28 अप्रैल, 2014 (सोमवार)

(घ) अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में तदनु रूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा, और

(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व उक्त उल्लिखित संसदीय - 28 मई, 2014 (बुधवार)

निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा; और,

(आ) उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट समय को ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, इस अनुसूची के स्तंभ (1) में तदनु रूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को, निर्वाचन के लिए मतदान होगा।

अनुसूची

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, दिनांक तथा मतदान का समय

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	मतदान की तारीख	मतदान का समय
1	2	3
<b>1-बिहार</b>		
<b>1- वाल्मीकिनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र</b>		
1-वाल्मीकिनगर वि.स.नि.क्षेत्र	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक
2- रामनगर (अ.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र		
3- नरकटियागंज वि.स.नि.क्षेत्र	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
4-बगहा वि.स.नि.क्षेत्र		
5-लौरिया वि.स.नि.क्षेत्र		
9-सिकटा वि.स.नि.क्षेत्र		
2-पश्चिम चम्पारण	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
3-पूर्वी चम्पारण	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
<b>16-वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र</b>		
90-मीनापुर वि.स.नि.क्षेत्र	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक
97-पारु वि.स.नि.क्षेत्र		
98-साहेबगंज वि.स.नि.क्षेत्र		
95-काँटी वि.स.नि.क्षेत्र	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
96-बरुराज वि.स.नि.क्षेत्र		
125-वैशाली वि.स.नि.क्षेत्र		
17-गोपालगंज (अ.जा.)	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
18-सिवान	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
<b>2-उत्तर प्रदेश</b>		
60-डुमरियागंज	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
63-महराजगंज	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
64-गोरखपुर	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
65-कुशीनगर	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक

66-देवरिया	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
67-बांसगांव (अ.जा.)	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
68-लालगंज (अ.जा.)	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
69-आज़मगढ़	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
70-घोसी	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
71-सलेमपुर	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
72-बलिया	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
73-जौनपुर	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
74-मछलीशहर (अ.जा.)	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
75-गाजीपुर	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
76-चन्दौली	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
77-वाराणसी	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
79-मिर्जापुर	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
<b>80-राबर्ट्सगंज (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र</b>		
383-चकिया (अ.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र 401-राबर्ट्सगंज वि.स.नि.क्षेत्र 403-दुद्धी (अ.जा.) वि.स.नि.क्षेत्र	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक
400-घोरावल वि.स.नि.क्षेत्र 402-ओबरा वि.स.नि.क्षेत्र	12 मई, 2014 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
<b>3 - पश्चिम बंगाल</b>		
10-बहरामपुर	12 मई, 2014 (बुधवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
12-कृष्णानगर	12 मई, 2014 (बुधवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
13-रणघाट (अ.जा.)	12 मई, 2014 (बुधवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
14-बनगांव (अ.जा.)	12 मई, 2014 (बुधवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
15-बैरकपुर	12 मई, 2014 (बुधवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
16-दमदम	12 मई, 2014 (बुधवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
17-बारासात	12 मई, 2014 (बुधवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
18-बसीरहाट	12 मई, 2014 (बुधवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
19-जयनगर (अ.जा.)	12 मई, 2014 (बुधवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
20-मथुरापुर (अ.जा.)	12 मई, 2014 (बुधवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
21-डायमण्ड हारबर	12 मई, 2014 (बुधवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
22-जादवपुर	12 मई, 2014 (बुधवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
23-कोलकाता दक्षिण	12 मई, 2014 (बुधवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
24-कोलकाता उत्तर	12 मई, 2014 (बुधवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
30-तामलुक	12 मई, 2014 (बुधवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
31-कांथी	12 मई, 2014 (बुधवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
32-घाटल	12 मई, 2014 (बुधवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक

आदेश से,  
सुमित मुखर्जी, सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग।

**ELECTION COMMISSION OF INDIA****NOTIFICATION**

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi- 110001 Dated 17<sup>th</sup> April, 2014 /  
27 Chaitra, 1936 (Saka)*

No. 464/2014(9)—WHEREAS, the president of India has, by notification issued under sub-section (2) of section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on the 17<sup>th</sup> April, 2014 (Thursday), has pleased to call upon each of the parliamentary constituencies, specified in column (1) of the Schedule below, in the States or Union Territories mentioned in the Schedule, to elect members to the House of the People, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

2. **Now, therefore**, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) **Appoints**, with respect to the said election, from each of the parliamentary constituencies specified in the said Schedule,-

- the 24<sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)** as the last date for making nominations;
- the 25<sup>th</sup> April, 2014 (Friday)**, as the date for scrutiny of nominations;
- the 28<sup>th</sup> April, 2014 (Monday)**, as the last date for withdrawal of candidatures;
- the date, specified in column (2) of the **SCHEDULE** below, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken in the parliamentary constituencies, specified in the corresponding entry in column (1) of the said Schedule; and
- the 28<sup>th</sup> May, 2014 (Wednesday)**, as the date before which the election shall be completed in all the above mentioned parliamentary constituencies; and

(B) **Fixes the hours** specified in column (3) of the said Schedule, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the constituencies, specified in the corresponding entry in column (1) of the said Schedule, on the date specified against such constituency in column (2) thereof, for the above election.

**SCHEDULE****Parliamentary Constituency, Dates and Hours of Poll**

<b>No. &amp; Name of Parliamentary Constituency</b>	<b>Date of Poll</b>	<b>Hours of Poll</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1- BIHAR</b>		
<b>1-Valmiki Nagar Parliamentary Constituency</b>		
1-Valmiki Nagar AC 2-Ramnagar (SC) AC	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 04.00PM
3-Narkatiaganj AC 4-Bagaha AC 5-Lauriya AC 9-Sikta AC	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
2-Paschim Champaran	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
3-Purvi Champaran	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
<b>16- Vaishali Parliamentary Constituency</b>		
90-Minapur AC 97-Paroo AC 98-Sahebganj AC	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 04.00PM

<b>No. &amp; Name of Parliamentary Constituency</b>	<b>Date of Poll</b>	<b>Hours of Poll</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
95-Kanti AC 96-Baruraj AC 125-Vaishali AC	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
17-Gopalganj (SC)	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
18-Siwan	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
<b>2- UTTAR PRADESH</b>		
60-Domariyaganj	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
63-Maharajganj	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
64-Gorakhpur	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
65- Kushi Nagar	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
66-Deoria	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
67-Bansgaon (SC)	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
68-Lalganj (SC)	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
69-Azamgarh	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
70-Ghosi	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
71-Salempur	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
72-Ballia	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
73-Jaunpur	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
74-Machhlishahr (SC)	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
75-Ghazipur	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
76-Chandauli	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
77-Varanasi	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
79-Mirzapur	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
<b>80-Robertsganj (SC) PC</b>		
383-Chakia (SC) AC 401-Robertsganj AC 403-Duddhi (SC) AC	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 04.00PM
400-Ghorawal AC 402-Obra AC	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
<b>3-WEST BENGAL</b>		
10-Baharampur	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
12-Krishnangar	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
13-Ranaghat (SC)	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
14-Bangaon (SC)	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
15-Barrackpur	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
16-Dum Dum	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
17-Barasat	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
18-Basirhat	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
19-Jaynagar (SC)	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
20-Mathurapur (SC)	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
21-Diamond Harbour	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM



<b>No. &amp; Name of Parliamentary Constituency</b>	<b>Date of Poll</b>	<b>Hours of Poll</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
22-Jadavpur	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
23-Kolkata Dakshin	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
24-Kolkata Uttar	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
30-Tamluk	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
31-Kanthi	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM
32-Ghatal	12 <sup>th</sup> May, 2014 (Monday)	07.00 AM to 06.00PM

By Order,  
SUMIT MUKHERJEE,  
*Secretary to the Election Commission of India.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 380-571+300-डी0टी0पी0।  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**